

## अध्याय - 8

### जाने क्यूँ ऐसा होता है ?

#### 1. शब्दों के अर्थ लिखो -

पत्तों का जमघट - पत्तों का ढेर लग जाना

सैलाब - उफान

सवाल- प्रश्न

#### 2.सही तथा गलत का निशान लगाओ -

1.बच्चे के मन में एक सवाल आता है। ✓

2.बीज से कभी पेड़ नहीं निकलते। X

3.सूरज पश्चिम से निकलता है। X

4.नारियल पूरा बंद होता है फिर

भी पानी आ जाता है। ✓

5.मेहंदी के हरे पत्तों से हाथ लाल हो जाता है। ✓

6.दिन में तारे जगमगाने लगते हैं। X

#### 3.कविता की अधूरी पंक्ति को पूरा करें-

सूरज आता कभी सिर पर,

तो कभी दाएँ-बाएँ जाता है।

चंदा भी कभी दिखता गोल-मटोल

टेढ़ा और गायब हो जाता है।

जाने क्यूँ ऐसा होता है ?

सारी चीजें गिरती धरती पर,

धुआँ आसमान में उठता है ।

तारों से जगमग आसमान दिन में नीला हो जाता है।

जाने क्यूँ ऐसा होता है?

4. इन शब्दों का बहुवचन बनाओ -

1. सैलाब - सैलाबे 2. पत्ता - पत्ते

3. दायाँ - दाएँ 4. तारा तारे

5. सवाल - सवाले 6. धुआँ - धुएँ

7. बायाँ - बाएँ 8. कितना - कितने

4. प्रश्नों के उत्तर लिखो -

1. मेहंदी के हरे पत्तों से क्या होता है?

उत्तर - मेहंदी के हरे पत्तों से हाथ लाल हो जाता है।

2. क्या सूरज हमेशा एक जगह स्थिर रहता है ?

उत्तर - नहीं सूरज कभी सिर पर तो कभी दाएँ - बाएँ जाता है ।

3. आपके मन में कौन-कौन से प्रश्न आते हैं?

उत्तर- हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं - जैसे पेड़ कैसे उगते हैं ,चंदा कभी गोल तो कभी टेढ़ा क्यों होता है ,मेहंदी के पत्ते से हाथ लाल क्यों हो जाते हैं आदि बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं।

4. रात में तारों से जगमग आसमान दिन में कैसे दिखता है ?

उत्तर- रात में तारों से जगमग आसमान दिन में नीला दिखाई देता है ।

5. विलोम शब्द लिखें-

- |                |            |           |           |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1.दूर-दूर      | 2.पास- पास | 3.कभी-कभी | 4.रोज-रोज |
| 5. अपना- पराया | 6.सुख-दुख  |           |           |

6. क्रिया किसे कहते हैं ?

उत्तर-किसी भी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं ।

7. क्रिया शब्द को रेखांकित करें -

- 1.बच्चे खेल रहे है।
- 2.मोहन नाच रहा है।
3. पक्षी आकाश में उड़ रहे है।
4. गीता पढ़ रही है ।
- 5.रीता तैर रही है।